

May 16, 2026

The Manager Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai 400 051 Maharashtra, India Scrip Symbol : UTLSOLAR	The Manager Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400 001 Maharashtra, India Scrip Code: 544613
---	--

Subject: Intimation of newspaper publication for the audited annual financial results and limited reviewed quarterly financial results ended March 31, 2026

Dear Madam/ Sir,

Please find enclosed the copies of the newspaper publication for audited annual financial results and limited reviewed quarterly financial results ended March 31, 2026 were published today i.e. May 16, 2026 in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition).

The copy of the same is enclosed herewith.

The above information is also available on the website of the Company i.e. <https://www.utlsolarfujiyama.com/>

Kindly take the information on record.

Thanking you,

Yours Sincerely,

**For Fujiyama Power Systems Limited
(Formerly Fujiyama Power Systems Private Limited)**

Mayuri Gupta
Company Secretary and Compliance Officer
M. No.: A75210

Encl: As above

SUMEDHA
adding values to value

Sumedha Fiscal Services Ltd.
CIN: L70101WB1989PLC047465
SEBI CAT I Merchant Banker: MB/INM000008753
Registered & Corporate Office: 6A Geetanjali,
8B Middleton Street, Kolkata - 700071.
T - 91 33 2229 8936 / 8758
E - investors@sumedhafiscal.com
W - www.sumedhafiscal.com

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS**

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting ('EGM') of the Members of Sumedha Fiscal Services Limited ('the Company') is scheduled to be held on Thursday, June 11, 2026 at 11:30 A.M (IST), Video Conferencing ('VC') Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence at a common venue, in compliance with General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/dated April 13, 2020 and other relevant circulars including General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 ('MCA Circulars') and applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') to transact the Special Businesses as set out in the Notice dated May 15, 2026 of the EGM. The deemed venue for the EGM shall be the Registered Office of the Company. The Members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

- In compliance with MCA Circulars and Listing Regulations, Notice of the EGM will be sent by e-mail only to all those Members whose email addresses are registered with the Company, the Company's Registrar to an Issue and Share Transfer Agent, Maheshwari Datamatics Private Limited ('RTA') / Depository Participant(s) ('DPs').
- Members who have not registered their e-mail address are requested to register / update their email address, in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository Participants and in respect of physical holdings with RTA by sending an email to contact@mdplcorp.com with the details of their Folio / Demat Account No. so as to receive the Notice of the EGM and the procedure for e-voting along with the login ID credentials. After updation, the Notice of the EGM will be sent by RTA through e-mail.
- Members may note that the Notice of the EGM will also be made available on the Company's website at www.sumedhafiscal.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited at <https://www.evotingindia.com>.
- Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the EGM through electronic voting system. The manner of voting remotely ('remote e-voting') by Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the EGM. The details will also be available on the website of the Company at www.sumedhafiscal.com and on the website of CDSL at <https://www.evotingindia.com/>. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the EGM and Members attending the EGM who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote at the EGM.
- The login credentials for casting votes through remote e-voting shall be made available through email for non-individual Members. Individual Members who are holding shares in National Securities Depository Limited ('NSDL') and CDSL should login through the websites of NSDL and CDSL, as the case may be, to cast their votes during remote e-voting period. Members who have not updated their email ID in the Demat account / Folio No. may get their email address and mobile number registered by sending an email to the Company's RTA contact@mdplcorp.com.

By Order of the Board of Directors
For Sumedha Fiscal Services Ltd.
Dhwani Fatehpuria
Company Secretary and Compliance Officer
Mem. No.: FCS12817

Place : Kolkata
Date : 15.05.2026

UTTAM SUGAR

Uttam Sugar Mills Limited
Regd. Office : Village Libberheri, Tehsil Roorkee, Distt. Haridwar (Uttarakhand)
CIN : L99999UR1993PLC032518 Tel.No.0120 - 4525000
Website - www.uttamsugar.in, Email Id - investorrelation@uttamsugar.in

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

Rs. in Lakhs (except EPS)

S. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations (Net)	45,380	55,185	211,643	180,052	47,187	56,913	220,992	185,414
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7,071	8,879	13,413	12,384	7,490	8,769	13,662	11,800
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,937	8,879	13,279	12,384	7,355	8,769	13,527	11,800
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,157	6,792	9,874	9,123	5,473	6,407	10,059	8,580
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,203	6,689	10,002	9,041	5,520	6,304	10,188	8,498
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81	3,813.81
7	Other Equity(as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)			82,599				83,839	
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -								
	1. Basic (In Rs.) :	13.52	17.81	25.89	23.92	14.36	17.26	26.30	23.16
	2. Diluted (In Rs.) :	13.52	17.81	25.89	23.92	14.36	17.26	26.30	23.16

Note:

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the 4th Quarter/Year ended on 31st March, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the 4th Quarter/Year ended on 31st March, 2026 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the company's website (www.uttamsugar.in).
- The Consolidated Financial Results include results of Subsidiary company: Uttam Distilleries Limited.

For Uttam Sugar Mills Limited
Sd/-
(Raj Kumar Adlakha)
Managing Director

Place : Delhi
Date : 15.05.2026

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated March 24, 2026 the "Letter of Offer" or "LOF" filed with the stock exchange, namely BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations").

GUJARAT COTEX LIMITED

CIN: L46695DN1996PLC000116

Registered Office: Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India - 396230.

Email: info@gujcotex.co | Website: www.gujcotex.co | Phone: +91-0261 3100550

Contact Person: Ms. Shweta Naresh Kumar Temani, Company Secretary & Compliance Officer

Our Company was originally incorporated as "Gujarat Cotex Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, and received its Certificate of Incorporation from the Registrar of Companies, Gujarat, on August 24, 1992, commencing business on August 25, 1992. Pursuant to a Scheme of Amalgamation approved by the Hon'ble High Court of Gujarat on February 23, 1993, the Company took over the undertaking of Jayant Texturising Private Limited as a going concern, engaged in the yarn texturing business. Subsequently, the Company's Registered Office was relocated from State of Gujarat, located at Morbi Memon Jamatkhana Building, Tankshal Pole, Rantitalav, Surat - 395003, Gujarat, India to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, located at 52, Government Industrial Estate, Phase-II, Piparia, Silvassa, Dadra and Nagar Haveli, India, as approved by an order of the Company Law Board and a fresh certificate was issued effective November 20, 1996. Thereafter, the name of the Company was changed from "Gujarat Cotex Limited" to "Octagon Industries Limited" pursuant to a fresh Certificate of Incorporation issued on May 26, 1997. Further, the Registered Office of the Company was shifted to Cassia-702, Garden City, Opposite Samarvani Panchayat, Khanvel Road, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli - 396230, with effect from October 5, 2011. Subsequently, with effect from June 4, 2021, the Registered Office was relocated to Shop No. 4, 1st Floor, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India - 396230. Later, with effect from August 29, 2026, the Registered Office was shifted from Shop No. 4, 1st Floor, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India - 396230 to Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India - 396230. Further, the name of the Company was reverted to its original name "Gujarat Cotex Limited" pursuant to a fresh Certificate of Incorporation issued on December 27, 2006. Our Company through Initial Public Offer (IPO) listed, listed on the BSE Limited on July 14, 1994, see "Summary of the Letter of Offer" on page no. 19 of the Draft Letter of Offer.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: PRIYAVANDA SUDHIR PAREKH, CHETANKUMAR SHAILESHKUMAR PAREKH, SHAILESHKUMAR JAYANTKUMAR PAREKH, SONAL DHARMESH SHETH, KETAN PAREKH AND SARLA SHAILESH PAREKH

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF GUJARAT COTEX LIMITED

("OUR COMPANY OR COMPANY") ONLY

RIGHTS ISSUE OF UP TO 8,54,64,000 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 5/- (RUPEES FIVE ONLY) EACH PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF ₹ 4,273.20 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 FULLY PAID UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 01, 2026 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS ONE TIME THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' ON PAGE NO. 87 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Gujarat Cotex Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the issue, which opened for subscription on April 10, 2026, and closed on May 08, 2026, with the last date for market renunciation of Rights Entitlements being May 05, 2026. Out of the total [1942] Applications for [82266850] Equity Shares, [500] Applications for [1577609] Equity Shares were rejected on the basis of grounds for technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of fully valid applications received was [1442] Applications for [80689241] Equity Shares.

The basis of allotment finalized on May 13, 2026, in consultation with the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on May 13, 2026, allotted [80689241] Equity Shares to the successful Applicants. All valid applications have been considered for Allotment.

1. Information regarding total number of Applications received:

Category	No. of Valid Applications (Including ASBA Applications) Received	Equity Shares applied for	Equity Shares allotted
Eligible Equity Shareholders	1062	38090445	37137098
Fraction	1	4000	0
Renouces	405	43558639	43552143
Not an eligible shareholder	474	613766	0
Total	1942	82266850	80689241

Basis of Allotment

Category	Number of valid Application received and considered for allotment	Number of Equity Shares accepted and allotted against Rights Entitlements (A)	Number of Equity Shares accepted and allotted against additional Equity Shares applied for (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	1043	9868733	27268364	37137098
Renouces	398	6362362	37189781	43552143
Fraction	1	1	3999	0
Total	1442	16231095	64462144	80689241



Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and reason for rejection, as applicable, to the investors has been completed on May 14, 2026. The instructions to SCSSBs for unlocking funds in case of ASBA Applications were given on May 13, 2026. The Listing application was executed with BSE on May 14, 2026 and subsequently, the listing approval was received on May 14, 2026. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of allottees will be completed on or before May 14, 2026. For further details please see "Terms of the Issue- Disposal of Application and Application Money on page number 102 of the LOF. Pursuant to the listing and trading approvals to be granted by BSE, the Rights Equity Shares Allotted in the issue is expected to commence trading on BSE on or before May 15, 2026. In accordance with the SEBI circular, the request for extinguishment of rights entitlement with NSDL and CDSL is expected to be completed on May 15, 2026.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: IT IS TO BE DISTINCTLY UNDERSTOOD THAT THE SUBMISSION OF THE LETTER OF OFFER TO SEBI SHOULD NOT, IN ANY WAY BE DEEMED OR CONSTRUED THAT THE SAME HAS BEEN CLEARED OR APPROVED BY SEBI. SEBI DOES NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY EITHER FOR THE FINANCIAL SOUNDNESS OF ANY SCHEME OR THE PROJECT FOR WHICH THE ISSUE IS PROPOSED TO BE MADE, OR FOR THE CORRECTNESS OF THE STATEMENTS MADE OR OPINIONS EXPRESSED IN THE LETTER OF OFFER.

IT SHOULD ALSO BE CLEARLY UNDERSTOOD THAT THE ISSUER IS PRIMARILY RESPONSIBLE FOR THE CORRECTNESS, ADEQUACY, AND DISCLOSURE OF ALL RELEVANT INFORMATION IN THE LETTER OF OFFER.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE Limited" on page no. 82 of the Letter of Offer.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
 PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lower, Mumbai, Maharashtra, India - 400 011 Contact No.: 022-49614132; Email id: support@purvashare.com Investor Grievance Email id: newissue@purvashare.com Website: www.purvashare.com ; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri SEBI Registration No.: INR00001112 CIN: U67120MH1993PTC074079	 GUJARAT COTEX LIMITED Registered Office: Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India - 396230. CIN: L46695DN1996PLC000116 Email: info@gujcotex.co Phone: +91-0261 3100550 Website: www.gujcotex.co

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue or post-issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSSBs in case of ASBA process, giving full details such as name, address of the Applicant contact number(s), e-mail address of the sole first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSSBs where the Application Form or the plain paper applications as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process).

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For, Gujarat Cotex Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Ms. Shweta Naresh Kumar Temani
Company Secretary & Compliance Officer

Date: May 14, 2026

Place: Silvassa

UTL SOLAR

FUJIYAMA SOLAR

FUJIYAMA POWER SYSTEMS LIMITED
(Formerly Fujiyama Power Systems Private Limited)
Corporate Identity Number: L31909DL2017PLC326513

Registered Office: 53A/6, Near NDPL Grid Office, Near Metro Station, Industrial Area, Sat Guru Ram Singh Marg, Delhi - 110015, India.
Tel: +91 011 41055305, Website: www.utsolarfujiyama.com; E-mail: investor@utsolarfujiyama.com

STATEMENT OF AUDITED ANNUAL FINANCIAL RESULTS AND LIMITED REVIEWED QUARTERLY FINANCIAL RESULTS ENDED MARCH 31, 2026

The Board of Directors of the company at its meeting held on May 14, 2026 inter alia approved the Audited Annual Financial Results and Limited Reviewed Quarterly Financial Results ended March 31, 2026

The complete Financial Results, are accessible on the company's website at <https://www.utsolarfujiyama.com/> and in the corporate section of BSE (<https://www.bseindia.com>) and National Stock Exchange of India Limited (<https://www.nseindia.com>). They can also be accessed by scanning the Quick Response Code given below.

By order of Board of Directors
FUJIYAMA POWER SYSTEMS LIMITED
Sd/-
Yogesh Dua
CEO and Joint Managing Director
(DIN : 00315251)

Date: May 15, 2026
Place: Delhi

Note: The above information is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

CHALET HOTELS

Chalet Hotels Limited
CIN: L55101MH1986PLC038538
Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G', Next to Bank of Baroda, Bandra Kuria Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051. Email ID: investorrelations@chalet-hotels.com, website: www.chalet-hotels.com

ATHIVA HOTELS & RESORTS

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2026

(Rs. in million)

Sr No	Particulars	Quarter Ended			Year ended	
		31 March 2026	31 December 2025	31 March 2025	31 March 2026	31 March 2025
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	5,710.55	5,892.11	5,373.75	28,124.25	17,541.22
2.	Net Profit for the period (before tax)	1,778.60	1,672.36	1,588.20	8,186.53	4,343.11
3.	Net Profit for the period after tax	1,630.02	1,240.68	1,238.35	6,450.17	1,424.94
4.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,630.63	1,244.91	1,243.21	6,453.66	1,423.51
5.	Paid up Equity Share Capital	2,189.94	2,187.53	2,184.55	2,189.94	2,184.55
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	34,787.99	33,132.65	28,277.92	34,787.99	28,277.92
7.	Securities Premium Account	20,372.74	20,259.73	20,173.51	20,372.74	20,173.51
8.	Net worth	36,971.56	35,314.04	30,457.02	36,971.56	30,457.02
9.	Outstanding Debt	23,239.48	23,869.23	25,542.97	23,239.48	25,542.97
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	1,969.02	-	1,969.02
11.	Debt Equity Ratio (in times)	0.63	0.68	0.84	0.63	0.84
12.	Earnings Per Share (of Rs 10/- each)-					
	1. Basic: (*not annualised) (in Rs.)	*7.45	*5.67	*5.68	29.50	6.53
	2. Diluted: (*not annualised) (in Rs.)	*7.44	*5.66	*5.67	29.46	6.52
13.	Capital Redemption Reserve	2,160.00	2,160.00	160.00	2,160.00	160.00
14.	Debt Redemption Reserve	-	-	-	-	-
15.	Debt Service Coverage Ratio	2.53	1.68	1.06	2.68	0.82
16.	Interest Service Coverage Ratio	6.86	5.94	5.32	6.82	4.85

Notes:

- The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14 May 2026.
- Key numbers of Standalone Financial Results**

Sr No	Particulars	Quarter Ended			Year ended	
		31 March 2026	31 December 2025	31 March 2025	31 March 2026	31 March 2025
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income	5,177.01	5,310.03	5,048.21	26,393.74	16,817.16
2.	Profit before income tax	1,812.66	1,675.99	1,701.18	8,426.79	4,699.79
3.	Profit for the period	1,668.21	1,265.34	1,334.34	6,654.07	1,715.71

The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2026 are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.chalet-hotels.com.

For Chalet Hotels Limited
(CIN - L55101MH1986PLC038538)
Sd/-
Shwetank Singh
Managing Director & CEO
(DIN. 02976637)

PLACE : MUMBAI
DATE : 14TH MAY 2026

ATHIVA HOTELS & RESORTS

JOY IS ON the HOUSE

ATHIVA.COM

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने दिनांक 19 मई 2026 के पत्र द्वारा Orion Finvest Private Limited (ऑरियन फ़िन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड / कंपनी) के संबंध में, Awaas Sewa Private Limited (आवास सेवा प्राइवेट लिमिटेड) को जारी अधिवास रूप से सार्वजनिक रूप से प्रचलित शेयरों (Compulsorily Convertible Preference Shares) के इच्छित शेयरों में रूपांतरण तथा कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन, अर्थात् शीमारी विजयवर्धन संजयकाई ब्रह्मपुत्र की Awaas Sewa Private Limited (आवास सेवा प्राइवेट लिमिटेड) की नामित निदेशक (Nominee Director) के रूप में कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्ति, हेतु स्वीकृति प्रदान की है। यह सार्वजनिक सूचना, एनबीएफएलसी के नियंत्रण/प्रबंधन में परिवर्तन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक (रि-संश्लेषण विधायक कंपनियों - शेयरधारिता अध्याय नियंत्रण का अधिखण्ड) निर्देश, 2024 के विनियम 2 के अनुपालन में जारी की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति हो अथवा उसके हित इस परिवर्तन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो, तो यह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी अपील महासचिव, DNBS, भारतीय रिजर्व बैंक, 4, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को भेज सकता/सकती है, जिसकी एक प्रति कंपनी के पर्युक्त पते पर भी भेजी जानी चाहिए।

Place : New Delhi
Date : 16th May 2026

For Orion Finvest Private Limited
Sd/-
Mr. Nandan Singh Bisht
Independent Director (DIN : 02365154)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

फॉर्म नं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार-धारा]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के सशक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मातले में तब
फिनिसफाई सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी/ओ/15625 स्ट्रीट नं. 12, बलवर्ध नगर एक्सटेंशन शाहरदा, शाहरदा दिल्ली, भारत, 110032 में स्थित है, के मामले में एनड्रा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "गण्ड्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से बदलकर "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी को सशक्त बनाने के लिए 08/05/2026 को आयोजित अध्याय आसमा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एंजोसिस्टरन के परिवर्तन की प्रुति के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेक कंपनी रिड करार के पास अपेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक विभागत फॉर्म भरकर प्रदत्त कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्पित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1 को उनके पते: सी-2 विंग, 2 या नल, पं. सौन्दर्याल अन्वोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा करार पंजीकृत डाक से भेजें: सी/ओ/15625 स्ट्रीट नं. 12, बलवर्ध नगर एक्सटेंशन शाहरदा, शाहरदा दिल्ली, भारत, 110032
फिनिसफाई सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से और उनके लिए
हस्ता/-
मानस गांधी
निदेशक
दिनांक: 08/05/2026
स्वान: दिल्ली
DIN:07928993

हैवेल्ल इंडिया लिमिटेड

रजि. ऑफिस: 804, 9वीं मंजिल, सूर्य किरण बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, कानौट प्लेस, नई दिल्ली-110 001, कॉर्पोरेट ऑफिस: क्यूआरटी टॉवर, डी.डी. सेक्टर-126, एक्सप्रेसवे, नोएडा-201 304 (उ.प्र.), फोन: +91-120-3331000, फैक्स: +91-120-3332000, वेब: www.havells.com ई-मेल: investors@havells.com, CIN - L31900DL1983PLC016304

एनड्रा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/गुम होने की सूचना दी गई है और जिसे खूदा नहीं जा सकता है। यदि इस नोटिस की तिथि से 15 दिनों के भीतर कंपनी द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी इसके बदले में डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी:

फॉलियो नंबर	पंजीकृत शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नंबर	विशिष्ट संख्या से - तक	शेयरों की संख्या (प्रत्येक 1 रुपये)
0015102	सुमन कुमार	281	1756001 से 1764000	8000
0005349	अमिताभ दीक्षित आभा दीक्षित	113	701001 से 703000	2000

कृते हैवेल्ल इंडिया लिमिटेड
हस्ता/-
कंपनी सचिव
नोएडा, 15 मई, 2026



DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identification Number: L15135HR1991PLC143853

Registered & Corporate Office: Plot No. 18, Sector - 35, Gurugram - 122004, Haryana Tel: +91-124-4566300,

E-mail: companysecretary@dil-rjcorp.com, Website: www.dil-rjcorp.com

Statement of Standalone and Consolidated financial results for the Quarter and Financial Year ended on 31 March 2026

[Regulation 33 read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

The Board of Directors of the Company at its meeting held on 15 May 2026 inter-alia considered and approved the Audited Financial Results of the Company (Standalone and Consolidated) for the Quarter and Financial Year ended on 31 March 2026. ('Financial Results')

The Financial Results along with the Auditors Reports, have been disseminated on the Company's website at <https://dil-rjcorp.com/wp-content/uploads/2026/05/financial-results.pdf> and can be accessed by scanning the QR Code.

For and on behalf of Board of Directors of
Devyani International Limited
Sd/-
Manish Dawar
Whole-time Director (President & CEO)
DIN: 00319476

Place : Gurugram
Dated : 15 May 2026



FUJIYAMA POWER SYSTEMS LIMITED

(Formerly Fujiyama Power Systems Private Limited)

Corporate Identity Number: L31909DL2017PLC326513

Registered Office: 53A/6, Near NDPL Grid Office, Near Metro Station, Industrial Area, Sat Guru Ram Singh Marg, Delhi - 110015, India. Tel: +91 011 41055305, Website: www.utsolarfujiyama.com, E-mail: investor@utsolarfujiyama.com

STATEMENT OF AUDITED ANNUAL FINANCIAL RESULTS AND LIMITED REVIEWED QUARTERLY FINANCIAL RESULTS ENDED MARCH 31, 2026

The Board of Directors of the company at its meeting held on May 14, 2026 inter alia approved the Audited Annual Financial Results and Limited Reviewed Quarterly Financial Results ended March 31, 2026

The complete Financial Results, are accessible on the company's website at <https://www.utsolarfujiyama.com/> and in the corporate section of BSE (<https://www.bseindia.com>) and National Stock Exchange of India Limited (<https://www.nseindia.com>). They can also be accessed by scanning the Quick Response Code given below.



Date: May 15, 2026
Place: Delhi

Note: The above information is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

By order of Board of Directors
FUJIYAMA POWER SYSTEMS LIMITED
Sd/-
Yogesh Dua
CEO and Joint Managing Director
(DIN : 00315251)



Fusion Finance Limited

(Formerly known as Fusion Micro Finance Limited)

CIN: L65100DL1994PLC061287

Registered address: H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi - 110028

Corporate office: Plot no. 86, Institutional Sector 32, Gurugram, Haryana - 122001

Contact Person: Vikrant Sadana, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91-124-6910500

E-mail: companysecretary@fusionfin.com; Website: www.fusionfin.com

Extract of Financial results for the quarter and year ended March 31, 2026

(₹ in crore unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended
		March 31, 2026	December 31, 2025	March 31, 2025	March 31, 2026	March 31, 2025
		Audited*	Unaudited	Audited*	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	424.02	416.44	473.54	1,698.53	2,343.94
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	37.41	14.05	(164.56)	(62.93)	(1,133.01)
3	Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	37.41	14.05	(164.56)	(62.93)	(1,133.01)
4	Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	114.19	14.05	(164.56)	13.85	(1,224.54)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	117.24	13.49	(165.16)	11.60	(1,223.26)
6	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- each)	161.52	161.36	100.65	161.52	100.65
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(83.63)	(204.15)	(109.47)	(83.63)	(109.47)
8	Securities Premium Account	2,378.04	2,374.11	1,652.15	2,378.04	1,652.15
9	Net worth	2,455.93	2,331.32	1,643.33	2,455.93	1,643.33
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	5,570.76	5,176.23	6,402.02	5,570.76	6,402.02
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	2.27	2.22	3.90	2.27	3.90
13	Earnings Per Share (face value of ₹ 10/- each) (not annualised for quarter ended)					
	1. Basic:	7.06	1.05	(14.97)	1.01	(111.41)
	2. Diluted:	7.06	1.05	(14.97)	1.01	(111.41)
14	Total debts to total assets	0.67	0.67	0.77	0.67	0.77
15	Net profit/(loss) margin (%)	26.55%	3.31%	(34.57%)	0.80%	(51.69%)
16	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA
17	Debtenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA
18	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA
19	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA

Notes:
1. The above results have been reviewed by Audit committee and approved by Board of Directors at their respective meetings held on May 15, 2026 in accordance with requirement of the Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations, 2015"). The audit of financial results for the quarter and year ended March 31, 2026, have been conducted by the Statutory Auditors of the Company.

2. The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015. The full format of the quarter and year ended financial results are available on the stock exchange website's i.e., National Stock Exchange (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and can be accessed on the website of the Company (www.fusionfin.com).

3. For the items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges i.e National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com, BSE Limited - www.bseindia.com and can be accessed on the Company's website i.e. www.fusionfin.com.

4. Previous periods/year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform with current period's classification.

* The figures for the quarter ended March 31, 2026 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year up to March 31, 2026 and the unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2025, being the date at the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review. Similarly, the figures for the quarter ended on March 31, 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year up to March 31, 2025 and the unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2024, being the date at the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.

Place: Gurugram
Date : May 15, 2026



For and on behalf of the Board of Directors of
Fusion Finance Limited
Sd/-
Sanjay Gargali
MD & CEO
DIN: 11046442

भारत एकांश लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : इन्दौर 8, 211 ओखला औद्योगिक संघ, फेज-III, नई दिल्ली-110020, भारत
सीआईएन : L74899DL1985PLC020973, इमार्क सं. 935577335-36, वेबसाइट : www.bharatekashlimited.com, ईमेल : bharatekash.ltd@gmail.com

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के समेकित एवं एकल लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र. सं.	विवरण	समेकित (₹ हजार में)		एकल (₹ हजार में)		एकल (₹ हजार में)		एकल (₹ हजार में)	
		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		31-मार्च-26	31-मार्च-25	31-मार्च-26	31-मार्च-25	31-मार्च-26	31-मार्च-25	31-मार्च-26	31-मार्च-25
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	परिचालन से राजस्व	2,716.53	791.02	490.68	5,261.38	3,570.75	2,716.53	791.02	490.68
2	अवधि हेतु नियत लाभ / (हानि) (कर, आप्याधिक मदी से पूर्व)	544.64	421.00	778.42	613.63	650.18	206.24	428.80	805.65
3	कर पूर्व अवधि हेतु नियत लाभ / (हानि) (आप्याधिक मदी के उपरान्त)	12,472.73	421.00	778.42	12,541.72	650.18	206.24	428.80	805.65
4	कर उपरान्त अवधि हेतु नियत लाभ / (हानि) (आप्याधिक मदी के उपरान्त)	12,361.23	421.00	546.33	12,430.22	418.09	142.05	428.80	573.56
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्ट)	12,361.23	421.00	546.33	12,430.22	418.09	142.05	428.80	573.56
6	समाप्त अंश पूंजी	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21
7	आरक्षितियां, पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों छोड़कर	5,009,915.61	4,888,554.09	4,888,778.12	5,009,915.61	4,888,485.39	18,008.96	17,866.64	18,036.68
8	ईपीएस (अंकित मूल्य ₹. 10/- प्रति अंश) आर्वाधिकीयुव								
	1. मूलभूत :	2.47	0.08	0.11	2.49	0.08	0.03	0.09	0.11
	2. परलोकित :	2.47	0.08	0.11	2.49	0.08	0.03	0.09	0.11

टिप्पणी :-
क) उपरोक्त सारांश, सेबी (एलओडीआर) विनियमनवली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत रटीक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट www.bharatekashlimited.com पर उपलब्ध है।

दिनांक : 15-05-2026
स्वान : नई दिल्ली

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated March 24, 2026 the "Letter of Offer" or "LOF" filed with the stock exchange, namely BSE Limited ("BSE") and the Securities and the Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations").

GUJARAT COTEX LIMITED

CIN: L46695DN1996PLC000116

Registered Office: Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India - 396230.

Email: info@gujcotex.co | Website: www.gujcotex.co | Phone: +91-0261 3100550

Contact Person: Ms. Shweta Naresh Kumar Temani, Company Secretary & Compliance Officer

Our Company was originally incorporated as "Gujarat Cotex Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, and received its Certificate of Incorporation from the Registrar of Companies, Gujarat, on August 24, 1992, commencing business on August 25, 1992. Pursuant to a Scheme of Amalgamation approved by the Hon'ble High Court of Gujarat on February 23, 1993, the Company took over the undertaking of Jayant Texturising Private Limited as a going concern, engaged in the yarn texturing business. Subsequently, the Company's Registered Office was relocated from State of Gujarat, located at Morbi Memon Jamathkhana Building, Tankshal Pole, Ranitlala, Surat - 395003, Gujarat, India to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, located at 52, Government Industrial Estate, Phase-II, Piparia, Silvassa, Dadra and Nagar Haveli, India, as approved by an order of the Company Law Board and a fresh certificate was issued effective November 20, 1996. Thereafter, the name of the Company was changed from "Gujarat Cotex Limited" to "Octagon Industries Limited" pursuant to a fresh Certificate of Incorporation issued on May 26, 1997. Further, the Registered Office of the Company was shifted to Cassia-702, Garden City, Opposite Samarvani Panchayat, Khanvel Road, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli - 396230, with effect from October 5, 2011. Subsequently, with effect from June 4, 2021, the Registered Office was relocated to Shop No. 4, 1st Floor, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India - 396230. Later, with effect from August 29, 2026, the Registered Office was shifted from Shop No. 4, 1st Floor, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India - 396230 to Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India - 396230. Further, the name of the Company was reverted to its original name "Gujarat Cotex Limited" pursuant to a fresh Certificate of Incorporation issued on December 27, 2006. Our Company through Initial Public Offer (IPO) listed, listed on the BSE Limited on July 14, 1994, see "Summary of the Letter of Offer" on page no. 19 of the Draft Letter of Offer.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: PRIYAVANDA SUDHIR PAREKH, CHETANKUMAR SHAIKESHKUMAR PAREKH, SHAIKESHKUMAR JAYANTKUMAR PAREKH, SONAL DHARMESH SHETH, KETAN PAREKH AND SARLA SHAIKESH PAREKH
NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF GUJARAT COTEX LIMITED ("OUR COMPANY OR COMPANY") ONLY

RIGHTS ISSUE OF UP TO 8,54,64,000 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 5/- (RUPEES FIVE ONLY) EACH PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF ₹ 4,273.20 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 FULLY PAID UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 01, 2026 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS ONE TIME THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE NO. 87 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Gujarat Cotex Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the issue, which opened for subscription on April 10, 2026, and closed on May 08, 2026, with the last date for market renunciation of Rights Entitlements being May 05, 2026. Out of the total [1942] Applications for [82266850] Equity Shares, [500] Applications for [1577609] Equity Shares were rejected on the basis of grounds for technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of fully valid applications received was [1442] Applications for [80689241] Equity Shares.

The basis of allotment finalized on May 13, 2026, in consultation with the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on May 13, 2026, allotted [80689241] Equity Shares to the successful Applicants. All valid applications have been considered for Allotment.

1. Information regarding total number of Applications received:

Category	No. of Valid Applications (Including ASBA Applications) Received	Equity Shares applied for	Equity Shares allotted
Eligible Equity Shareholders	1062	38090445	37137098
Fraction	1	4000	0
Renounces	405	43558639	43552143
Not an eligible shareholder	474	613766	0
Total			